

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 25]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 जनवरी 2015—पौष 29, शक 1936

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी, 2015 (पौष 29, 1936)

क्र. 1301-वि.स.-विधान-2015.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 16 जनवरी, 2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्द्वारा, इस राज्य की विधान सभा को बुधवार, दिनांक 18 फरवरी, 2015 को पूर्वाह्न 10:30 बजे भोपाल में समवेत् होने के लिये आमंत्रित करता हूँ.

भोपाल :
दिनांक 16 जनवरी, 2015

राम नरेश यादव
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.”

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.